

STUDY NUMBER:

वैकल्पिक बायोप्सी/जीवोति-जांच

बायोप्सी विशेष रूप से अनुसंधान प्रयोजनों के लिए की जाती है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे भविष्य में अन्य लोगों को मदद मिल सकती है। बायोप्सी पे 'हां' हस्ताक्षर करने के बावजूद आप किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें और अपने चुनाव के बारे में सोचें। वाक्य को पढ़ें और जो आपको सही लगे उसे सर्कल कर दें। इस रिसर्च के हिस्से में भाग लेने का निर्णय बिलकुल वैकल्पिक है, आप जो भी निर्णय लें, यह आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा।

मैं इस अध्ययन के रिसर्च परीक्षण में ट्यूमर बायोप्सी करवाने के लिए तैयार हूँ।

हां _____ नहीं _____ हस्ताक्षर _____

नमूने और डेटा का भविष्य के रिसर्च (अनुसंधान) के लिए उपयोग

हम कुछ नमूने एवं डेटा रखना चाहेंगे जिसे हम इकट्ठा करेंगे और भविष्य में रिसर्च के लिए उपयोग करेंगे और उन्हें हम अन्य रिसर्चर्स (अन्वेषकों) के साथ सांझा करेंगे। हम भविष्य के इन प्रत्येक उपयोगों के लिए आपसे संपर्क नहीं करेंगे। इन नमूनों एवं डेटा को एक संख्या के आधार पर पहचाना जाएगा और आपके नाम से नहीं। आपके नमूनों एवं डेटा का उपयोग केवल रिसर्च उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। रिसर्चर्स विज्ञान को विकसित करने और स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में सीखने के लिए वैज्ञानिक डेटाबेस में रखे गए नमूने और डेटा का उपयोग करते हैं। यह भी संभव है कि संग्रहीत नमूनों एवं डेटा को कभी भी उपयोग में ना लाया जाए। आपके नमूने एवं डेटा पर किए गए रिसर्च के परिणाम आपको या आपके डॉक्टर को उपलब्ध नहीं किए जायेंगे। यह भविष्य में कैंसर और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के काम आ सकते हैं।

अगर अभी आप तय करते हैं कि आपके नमूने और डेटा रिसर्च और सांझा करने के लिए रखे जा सकें, तब भी आप अपना मन किसी भी समय बदल सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमसे संपर्क करना होगा और बताना होगा कि आप अपने नमूने एवं डेटा को रिसर्च के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते। इसके बाद जिन नमूनों का पहले उपयोग नहीं हुआ है या उन्हें सांझा नहीं किया गया, ऐसे नमूनों को नष्ट कर दिया जाएगा और आपका डेटा भविष्य के अनुसंधान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

कृपया नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें और अपने चुनाव के बारे में सोचें। प्रत्येक वाक्य को पढ़ें और जो आपको सही लगे उसे सर्कल कर दें। इस रिसर्च के हिस्से में भाग लेने का निर्णय बिलकुल वैकल्पिक है, आप जो भी निर्णय लें, यह आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा।

मेरा डेटा एवं नमूने कैंसर और अन्य बिमारी के इलाज, उसे रोकने एवं अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

हां _____ नहीं _____ हस्ताक्षर _____